

## g You Ahead North Eastern Carrying Corporation Limited.

June 01, 2022

Corporate Relations BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-4000 01 (Security Code : 534615) The Manager (Listing Department) National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051 (Symbol: NECCLTD)

## Subject:Publication of Audited Financial Results of the Company for the year ended31st March, 2022.

Dear Sir(s)

Pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper publication of the audited Financial Results of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022 in the following newspapers: Financial Express (English) & Jansatta (Hindi), both dated June 01, 2022.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking You

For North Eastern Carrying Corporation Limited

For North Eastern Carrying Corporation Ltd.

Act + alwards

(Mamta Bisht) Company Secretary Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

# EMERALD LEASING FINANCE & INVESTMENT COMPANY LIMITED Regd. Office: SCO 7 Industrial Area Phase 2 Chandigarh 160002 CIN : L65993CH1983PLC041774

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED 31.03.2022

S.	Particulars	[	Sta	Consolidated			
No.		Quarter Ended		Year to date Figures as on		Year to date t	figures as on
NO.		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	Total Income from operations (net)	115.366	111.401	408.975	256.564	846.199	539.375
2	Dividend	-			4.500	-	4.500
3 (	Other Income	4.318	1.159	4.331	1.234	4.549	1.313
	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	56.839	44.811	219.355	133.598	337.886	190.944
50 U U	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	40.711	35.001	162.324	100.680	247.512	139.390
1	Total Comprehensive Income for the period (con and Other Comprehensive Income (after tax)	nprising Profi 40.711	t/ (Loss) fo 35.001	r the period 162.324	(after tax) 100,680	247.512	139.390
	Equity Share Capital	2,904.365	904.365	2,904.365	904.365	2,904.365	904.365
	Reserves excluding Revaluation Reserve as per In	idAS -			L 243		
	Earning Per Equity Share of Face Value of Rs 10/-each (in Rs)	-					
	1. Basic	0.14	0.39	0.56	1.11	0.85	1.54
	<ol> <li>Diluted</li> <li>The above results have been reviewed by the Au</li> </ol>	0.14	0.39	0.56	1.11	0.85	1.54

and the other accounting principles generally accepted in India. Dated : 30.05.2022 Place : Chandigarh

## UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED

Read.Office : 806.Siddharth.96. Nehru Place. New Delhi 110 019 CIN: L34300DL1991PLC044365

Website : www.uniofficeautomation.com email:investoroa@hcl.com Phone No : 011-2681411

Extract of standalone Audited Financial Results for the year & guarter ended 31<sup>st</sup> March, 2022

-		Th	ree Months er	Year ended		
SI. No.	Particulars	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
NO.		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Other Income/income from operation	1.02	1.81	3.16	9.46	13.12
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items )	-1.57	0.05	(34.36)	-0.14	(35.97)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.57	0.05	(34.36)	-0.14	(35.97)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.57	0.05	(34.36)	-0.14	(35.97)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-1.57	0.05	(34.36)	-0.14	(35.97)
6	Equity Share Capital	1465.27	1465.27	1465.27	1465.27	1465.27
7	Reserves (Excluding Revaluation reserves as shown in Balance Sheet of previous year	(m)	•	200	-1249.47	-1249.34
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	-0.01	0.00	(0.23)	0.00	(0.25)

#### Note:

1. The above standalone results for the guarter and year ended 31st March , 2022 have been reviewed by Audit Committee and

# 36

Sanjay Aggarwal

(Managing Director)

DIN NO- 02580828

# **FINANCIAL EXPRESS**

	GREEN	EX	TRACT FIN	VANCIAL R	ESULTS FO	R QUARTE	R & YEAR E	NDED 315	T MARCH	,2022		
	Own your health									Andre Geschellen II. Andre		Rs. In Lak
	C 21.7 20.4			Standalone			Consolidated		Stand	lalone	and the second se	lidated
<b>S</b> .		Particulars	(	Quarter ender	the second se	Quarter ended			Year e	ended		
No.		rarticulars	Audited Un-Audited Audited		Audited	Un-Audited	Audited		Aud		1	
			31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.202
1	Total Income from Op	perations	345.53	446.02	231.46	587.48	757.70	755.54	1343.90	1180.02	2411.64	1779.18
2		for the period (before Tax, Extraordinary items#)	-63.46	23.94	47.38	-76.22	42.61	14.83	38.45	177.61	48.81	192.29
3	Net Profit / (Loss) for Exceptional and/or Ex	or the period before tax (after (traordinary items#)	-63.73	23.94	43.40	-76.49	42.61	10.85	38.18	173.64	48.54	188.31
4	Net Profit / (Loss) Exceptional and/or Ex	for the period after tax (after traordinary items#	-47.33	17.71	57.97	-53.43	32.21	58.26	30.94	150.02	42.37	162.67
5	[Comprising Profit /	tal Comprehensive Income for the period omprising Profit / (Loss) for the period (after tax) of Other Comprehensive Income (after tax)]		17.71	57.97	-53.43	32.21	58.26	30.94	150.02	42.37	162.67
6	Equity Share Capital		793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12
7		Revaluation Reserve) as shown in Sheet of the previous year										
8		Earnings Per Share (Equity Share of Rs. 10/- each) (forcontinuing and discontinued operations) - 1. Basic:			0.73 0.73	-0.67 -0.67	0.41 0.41	0.73	0.39 0.39	1.89 1.89	0.53 0.53	2.05
Noti (1)	BS:-	re reviewed by the Audit Committ	-0.60 ee and appro	0.22		100 - 100 - 11 1		16			NI 2000 - 1	
(1) (2) (3)	The Statutory Auditor The above is an extra Disclosure Requireme	re reviewed by the Audit Committ of the company have issued an A act of the details format of the A ents) Regulations,2015 the full for s wesite www.sugarindia.com/w	Audited repor udited standa mat of the Au	t on the Audit alone & Conso dited standalo	ed standalone blidated finan	and consolidation and consoli	ated financial n d with Stock E	esult for the C change unde	r Regulation	33 of the SEE	BI ( Listing O	bligation a

(Rs.in Lakhs)

**Corresponding 3** 

months ended in

the previous year (31/03/2021)

(Audited)

7544.65

328.78

328.78

296.19

296.19

5019.73

0.59

0.59

Sd/-

(Sunil Kumar Jain)

DIN: 00010695

**Chairman & Managing Director** 

**Previous Year** 

ended

(31/03/2021)

(Audited)

23058.64

175.59

175.59

143.00

143.00

5019.73

4452.31

0.28

0.28

For North Eastern Carrying Corporation Limited

#### Vishal Khand Branch (Erstwhile Vijaya Bank) बैंक ऑफ़ बड़ौदा 4/28, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-010 Bank of Baroda Ph: 0522-2301513 4 Married ID Street Email: vjvikh@bankofbaroda.com **POSSESSION NOTICE (For immovable property)** Whereas the under signed being the Authorised Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice, to the following borrowers/guarantors to repay the amount mentioned in the notice, with interest within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the below mentioned borrowers and

the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates as mentioned below.

The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount/liability and interest and other expenses thereon due from the borrowers as mentioned here in below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax

Exceptional and/or Extraordinary items)

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after

Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)]

Equity Share Capital (face value Rs 10/- per share)

Reserve excluding Revaluation Reserve as per

(for continuing and discontinued operations)

Total Income from Operations

Balance Sheet of previous year

Earnings Per Share (of Rs 10/-each)

Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

were subject to limited review.

exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

## AUTO PINS (INDIA) LIMITED

Regd. Off: Premise No. 40, 1st Floor, India Mall, New Friends Colony, New Delhi, South Delhi-110025 CIN: L34300DL1975PLC007994 Landline: 91-129-4155691/92 Email Id: autopinsdelhi@gmail.com; Website: https://www.autopinsindia.com Statement of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter & Financial Year Ended 31st March, 2022

	Quarte	Year Ended	
Particulars	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
Total Income from Operations	1075.37	1126.19	3610.85
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.30	63.99	44.04
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.30	63.99	44.04
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	35.75	68.28	64.17
Total Comprehensive Income for the period			

a	proved by Board of Directors of the Company at its meeting held on May 27, 2022.
2. 1	e above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchange under Regulaion 33 of SEBI
(	sting and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the
s	ck exchanges website at a link (bseindia.com/corporates) and on the Company's website at www.uniofficeautomation.com.
	For Universal Office Automation Limited
	Sd/-
Place	: New Delhi Sunii Kumar Shrivastava
Date	27.05.2022 Managing Director

### ENCODE PACKAGING INDIA LIMITED (FORMALLY KNOWN AS NOVA PUBLICATIONS INDIA LIMITED) Regd. Office- D-82, FOCAL POINT EXTENSION JALANDHAR CITY PUNJAB. Web: http://encodepackaging.com/, CIN: L67120PB1994PLC015406

Extract of Audited Financial Results for the Year ended 31st March 2022. (7 in Lacs)

	Particulars	3 Months Ended (31.03.2022) Audited	3 Months Ended (31.12.2021) Unaudited	Corresponding 3 Months Ended (31,03,2021) in the Previous Year Audited	Year to Date Figures for Current Period Ended (31.03.2022) Audited	Previous Year Ended (31.03.2021) (Audited)
1	Total Income from Operations	38.29	12.63	388.6	105.97	388.6
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	6.63	-4.4	6.46	6.93	0.65
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	6.63	-4.4	6.46	6.93	0.65
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	5.25	-4.4	6.45	5.85	0.57
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	5.25	-4.4	6.45	5.85	0.57
6	Equity Share Capital	315.21	315.21	315.21	315.21	315.21
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.02	-0.04	0.05	0.02	0.1

a) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the year ended 31st March 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the audited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the listed entity (encodepackaging.com).

b) The above Financial results have been reviewed by the Audit Committee and adopted by the Board of directors at its meeting held on 30.05.2022

The operation of the Company relates to a single reportable segment.

The above Financial Results have been prepared in accordance with the Indian accounting Standards (Ind-AS) as notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rule, 2015 as specified in section 133 of Companies Act, 2013. By order of the Board of Directors

Place:-Jalandhar Date:-30.05.2022

S. No.

For Encode Packaging India Limited Rajan Chopra, Whole-time Director

	Regd. Office: Plo Tel.: +9' Website: www.kd		302HP198 or – III, Parv 223 / 24	APLC0081 wanoo, Dist Fax : +91	123) t. Solan (H. 172 25483	P.) - 173220 02			
	STATEME FOR THE QUA								
				(R	ls. in Lakhs e	xcept earning	s per share)		
Г	Particulars		Standalone			Consolidated			
	(Refer notes below)	Quarter ended 31 March, 2022	Current Year ended 31 March, 2022	Previous Year ended 31 March, 2021	Quarter ended 31 March, 2022		Previous Year ended 31 March, 2021		

SL No.	/Guarantors/ Date of Demand / Possession Notice	Description of immovable property	Outstanding Amount (₹)
9-25	Pandey, 2. Mr. Chandrabhushan Pandey, 3. Mr. Santosh Pandey and 4. Mr. Rajesh Pandey all s/o Mr. Cheddi Prasad Pandey All R/o House no. 4/489 G Vibhavkhand, Gomti Nagar,	All that part and parcel of the property consisting of Khasra no. 466, 467 (Part of) Bhagemau, Phase-3, Gomti Nagar, Lucknow. Owner: Mr. Jitendra Nath Pandey, Mr. Chandrabhushan Pandey, Mr. Santosh Pandey and Mr. Rajesh Pandey all s/o Mr. Cheddi Prasad Pandey. Bounded by: East: Part of Khasra no. 467; West: 8 mtr. wide road; North: 8 mtr. wide road; South: Plot of others.	8,55,422.56+ interest & other expenses
Da	ate: 01.06.2022; Place: Lucknow	Authorised Officer, Ba	nk of Baroda

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED (CIN: L51909DL1984PLC019485) Regd. Office : 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi- 110006 Tel. No.: 011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com, Website- www.neccgroup.com Statement of Audited Financial Results for the Year ended 31.03.2022

Current year

ending

(31/03/2022)

(Audited)

25042.77

568.64

568.64

425.75

421.57

5019.73

4873.88

0.85

0.85

1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the BSE Limited and

2. The Results are available on the website of the Company at www.neccgroup.com and website of Stock

3 The figures of the last guarter are balancing figures between the audited figures in respect of full financial

The above audited financial results for the year ended March 31, 2022 were reviewed by the Audit

Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 30, 2022.

5. The figures of previous financial year were regrouped/rearranged where ever necessary.

year and unaudited figures published year to date up to the third quarter of the relevant financial year which

National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and

[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	35.75	68.28	64.17
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	570.71	570.71	570.71
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic : 2. Diluted:	0.63 0.63	1.20 1.20	1.12 1.12
Notes:			
<ol> <li>The above is an extract of the detailed form Results for the Fourth Quarter and year end under Regulation 33 of the SEBI (LODR) R Financial Results ended 31st March, 20 (www.bseindia.com) and Company's webs</li> <li>The above Audited Financial Results were</li> </ol>	led 31st Mar egulations, 122 is avail ite (https://v	ch, 2022 filed 2015. The full able on the f /ww.autopinsin	with the BSE format of the BSE website ndia.com).

The above Audited Financial Results were reviewed by the Audit Comm approved by the Board of Directorsin its meeting held on 30th May, 2022.

For	AUTO	PINS	(INDIA	)LIMITE
			0089989	Sd

RAJBIR SING
MANAGING DIRECTO
DIN: 0017657



POSSESSION NOTICE

(Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas, the Authorized Officer of the State Bank of India, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice on 01.04.2021 calling upon the Borrower M/s Sethi Agencies, A-114A, Panchsheel Vihar, Khirki Extension, Malviya Nagar, Delhi-110017, Mr. Anuj Sethi, Mr. Pankaj Sethi, Mrs. Anita Sethi, Mrs. Sangeeta Sethi all R/o V-38, 2nd Floor, Rajouri Garden, Delhi-110027 and Satdev Soni R/o 143/3, Dharampura Basti Development Scheme, Batala, Distt. Gurdaspur, Punjab (hereinafter the Borrower and Guarantors are collectively referred to as "the Borrowers") to repay the amount mentioned in the said Demand Notices being Rs. 9,17,49,238/- (Rs. Nine Crore Seventeen Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred Thirty Eight only) as on 31.03.2021 along with future interest on the said amount the contractual rates with respectively together with all incidental expenses, cost charges, etc. within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to Borrower/Guarantors in particular and public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of said Rules on this 27th day of May 2022.

The Borrower / Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of State Bank of India for an amount of Rs. 9.17.49.238 (Rs. Nine Crore Seventeen Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred Thirty Eight only) as on 31.03.2021 along with future interest on the said amount the contractual rates with respectively together with all incidental expenses, cost charges, etc.

The borrower's /guarantor's/mortgagor's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

#### DESCRIPTION OF SECURED ASSET:

Residential Building bearing Plot No.143/III, Improvement Trust Scheme, Dharampura Basti Development Scheme, Batala, Distt. Gurdaspur, Punjab in the name of Mr Sat Dev Soni S/o Sh. Ganda Mal Soni measuring 251 sq yards, registered vide Sale Deed No 2754 dated 27.09.1993 and Bounded as : North - Plot No. 167, South - 30 ft Road, East - Plot No. 142 III, West - 30 ft Road

Date : 27-05-2022, Place : New Delhi Authorised Officer, State Bank of India

PRIME INDUSTRIES LIMITED

Regd. & Head Office : Master Chambers, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana (Punjab) (CIN: L15490PB1992PLC012662), Email : prime indust@yahoo.com, Website : www.primeindustrieslimited.com, Phone No. 0161-5043500 Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31.03.2022 **Rs. In Millions** Quarter ended Year ended Particulars Quarter ended Quarter ended Year ended 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 Audited **Un-Audited** Audited Audited Audited Total income from operations (net) 2.88 81.78 7.01 74.79 16.96 Net Profit / (Loss) for the period (before 0.22 -1.82 2.50 -1.58 1.69 Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before 0.22 -1.822.50 -1.58 1.69 tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after 0.14 -1.822.50 -1.66 1.69 tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the -31.92 76.24 42.41 28.38 95.63 period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 78.63 78.63 78.63 78.63 78.63 Earnings Per share (before/after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) **Basic & Diluted** 0.009 -0.116 0.159 -0.106 0.108 Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the guarter and financial year ended 31st March, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the guarter and financial year ended 31st March, 2022 is available on Company's website : www.primeindustrieslimited.com and also on the BSE website : www.bseindia.com. 2. The above Financial results have been duly reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in this respect in meeting held on May 30, 2022

MEGASTAR FOODS LIMITED CIN: L15311CH2011PLC033393 teg. off: Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II Chandigarh 160102 Works: Village Solkhian, Near Haveli Resorts, District Rupnagar, 140 108 Telephone: +91 1881 240401; Website: www.megastarfoods.com; E-mail: cs@megastarfoods.com

	Place: Delhi

S.

2

3

4

5

6

8

Notes:

a) Basic

Date : 30.05.2022

b) Diluted

No.

		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	6423	22347	14941	22883	83158	56724
2	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	902	2650	515	1566	5228	1062
3	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	902	2650	515	1566	5228	1062
4	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	826	2060	339	1116	3715	697
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	822	2070	357	1109	3784	678
6	Paid-up equity share capital (Face value in Rs 10 per share)	1274	1274	1165	1274	1274	1165
7	Reserve (excluding revaluation reserves)		20310	16133		23878	17482
8	Earnings per share (of Rs 10/- each) (notannualized): (a) Basic (Rs) (b) Diluted (Rs)	6.49 6.49	16.31 16.31	2.85 2.85	7.59 7.59	25.26 25.26	4.76 4.76

#### Notes:

Place : Chandigarh

Date : 30 May, 2022

financialexp.epapr.in

 The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30 May 2022. The audit report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange.


The above is the extract of the detailed format of the audited guarterly & year ended 31st March 2022 financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,. The full format of the audited financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nse.india.com and the company's website www.kddl.com For and on the behalf of Board of Directors

Sanjeev Kumar Masown (Whole time Director cum Chief Financial Officer) DIN-03542390

For Prime Industries Limited

**RAJINDER KUMAR SINGHANIA** Managing Director DIN - 00077540

Sr.	Limited For the Quarter and Finance Particulars	Contraction of the local division of the loc	CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP	Provide Statement Statement	ALC: NAME OF TAXABLE PARTY.	
No	Farticulars		Quarter ended 31-03-2022 31-03-2021		Year ended 31-03-2022 31-03-202	
	2	(Audited)	the second	(Audited)		
1.	Total Income from operations	5253.60	4184.91	18527.07	16342.88	
2.	2. Net Profit from ordinary activities before tax		40.22	721.48	585.75	
3.	Net profit for the period after tax (PAT)	173.00	29.36	545.28	409.54	
4.	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit for the period after tax and other Comprehensive income after tax		29.87	528.80	411.62	
5.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value per share Rs 10/-)	1000.37	990.37	1000.37	990.37	
6.	Other Equity	2586.46	2017.65	2586.46	2017.65	
7.	Earnings per equity share (Face Value of Rs. 10/- each)	1				
	Basic	1.74	0.30	5.49	4.14	
	Diluted	1.74	0.30	5.49	4.14	
_		Quarter e	Stand	Year e	nded	
		31-03-2022		31-03-2022	and the second second second	
	Particulars	(Audited)	and the second se	(Audited)	(Audited)	
To	tal Income from operations	5250.83	4189.15	18503.65	16347.12	
Pr	rofit before tax	211.70	45.56	699.87	592.17	
P	rofit after tax	169.56	33.08	527.46	414.35	
		Cha	irman & n	Vil nanaging Din: 0 Annual F	Sd/ kas Goe Director 5122585 inancia	
NO The	above is an extract of detailed fo sults filed with the Stock Exchange		Contraction of the second second		and the second se	











New Delhi

Sd/-

#### जनसत्ता, 1 जुन, 2022 19



I		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	31.03.2022 अंकेक्षित	31.03.2022 अंकेक्षित	31.03.2021 अंकेक्षित
षरिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0.21	10.32	1.25
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(1.30)	(0.48)	0.25
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1.30)	(0.48)	0.25
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1.30)	(0.48)	0.19
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(1.30)	(0.48)	0.19
इक्विटी शेयर पूँजी	330.00	330.00	330.00
आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	7.42	7.42	6.88
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
क) मूल	(0.04)	(0.01)	-
ख) तरल	(0.04)	(0.01)	-

NATIONAL	<b>GENERAL</b>	<b>INDUSTRIES LIMITED</b>

Regd. Off : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, SaraiJulena, New Friends Colony, New Delhi - 110025 Tel. No. : 011-49872442, E-mail: cs@modisteel.net, CIN: L74899DL1987PLC026617

t of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended	31st March 2022
---	-----------------

			(Rs. in Lakhs	s, Unless Other	wise Stated)
		Quarter Endeo	Year Ended		
Particulars	31-03-2022 Audited	31-12-2021 Un-audited	31-03-2021 Audited	31-03-2022 Audited	31-03-2021 Audited
Total income	469.67	492.00	1175.06	1936.16	2550.66
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional)	49.81	(13.32)	525.48	14.80	567.30
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and after Exceptional)	49.81	(13.32)	525.48	14.80	567.30
Net Profit / (Loss) for the period (after tax and Exceptional)	40.70	(12.80)	565.26	10.17	580.42
Equity Share Capital	466.96	466.96	466.96	466.96	466.96
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				2468.45	2396.81
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic (in Rs.):	0.87	(0.27)	10.23	0.22	10.50
- Diluted (in Rs.):	0.73	(0.23)	10.23	0.18	10.50

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the For NATIONAL GENERAL INDUSTRIES IT Company's website (www.modisteel.com).

ATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.	
Sd/-	
Pawan Kumar Modi	

#### NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51909DL1984PLC019485)

Regd. Office : 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi- 110006 Tel. No.: 011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com, Website- www.neccgroup.com

#### Statement of Audited Financial Results for the Year ended 31.03.2022 (Rs.in Lakhs)

S. No.	Particulars	Current year ending (31/03/2022)	Previous Year ended (31/03/2021)	Corresponding 3 months ended in the previous yea (31/03/2021)		
		(Audited)	(Audited)	(Audited)		
1	Total Income from Operations	25042.77	23058.64	7544.65		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	568.64	175.59	328.78		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	568.64	175.59	328.78		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	425.75	143.00	296.19		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	421.57	143.00	296.19		
6	Equity Share Capital (face value Rs 10/- per share)	5019.73	5019.73	5019.73		
7	Reserve excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of previous year	4873.88	4452.31			
8	Earnings Per Share (of Rs 10/-each) (for continuing and discontinued operations)					
	a) Basic	0.85	0.28	0.59		
	b) Diluted	0.85	0.28	0.59		

Notes:

31

स्थानः नई दिल्ली तिथिः 30 मई, 2022

द्रस्ता /\_

स्थानः नई

- 1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The Results are available on the website of the Company at www.neccgroup.com and website of Stock exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.
- 3 The figures of the last guarter are balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and unaudited figures published year to date up to the third guarter of the relevant financial year which were subject to limited review.
- 4. The above audited financial results for the year ended March 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 30, 2022.
- 5. The figures of previous financial year were regrouped/rearranged where ever necessary. For North Eastern Carrying Corporation Limited

Tor North Eastern Garrying Corporation Enlined
Sd/-
(Sunil Kumar Jain)
Chairman & Managing Director
DIN: 00010695

Orchies
The most special way to say you care
आर्चीज लिमिटेड
पंजी : कार्यालय : प्लॉट नं. 191-एफ, सेक्टर-4, आई.एम.टी. मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050
CIN: L36999HR1990PLC041175,
वेब ः www.archiesonline.com एवं www.archiesinvestors.in
मेल ः archies@archiesonline.com, टेली ः +91 124 4966666 फैक्स ः +91 124 4966650
मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिये अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार
( रु. लाखों
विवयण । माण विपादी । माण वर्ष

क्रम जां	विवरण		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
<b>N</b> .		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	

Invites applications for the following post Assistant Professors on regular basis in Self Financing Courses as per the details given below:

Hindi-2, Political Science-3, Geography-3, Mathematics-2, Physics-3, Chemistry-4, Commerce-2, Physical Education-2, Computer Science-2 Salary Negotiable, Qualifications & Other conditions for the post as per M.D. University, Rohtak / Haryana Govt. / U.G.C.rules. Apply on prescribed form available from the college office, from 9:00 a.m. to 2:00 p.m. by sending D.D. of Rs. 550/- in favour of Principal, C.R.A. College, Sonepat. D.D. of above mentioned fee should be attached with the application form if sent by post or can be downloaded from the college website to be deposited with the said amount. The application completed with all supporting documents should reach within 21 days of the publication of this advertisement i.e. up to 21st June 2022 addressed to the General Secretary, Tika Ram Education Society, Tika Ram Model School, West Ram Nagar, Sonepat-131001. A copy of application must be submitted to the Dean, College Development Council, M.D. University, Rohtak

> Surinder Singh Dahiya, President Tika Ram Education Society Sonipat

ऋण वसूला न्यायााधकरण— II, चंडागढ (वित्त मत्रांलय)	
प्रपत्र संख्या—4 [विनियम —15(1)(बी) देखें	Ì
पहली मंजिल, एससीओ 33–34–35 सेक्टर –17 ए, चंडीगढ़	
(तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)	
ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993	
यथा समय—समय पर संशोधित प्रावधानों के साथ पठित	
प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत सूचना	

मामला संख्याः 2018 का एसए नंबर 57 पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ..आवेदक (ओं)

प्राधिकृत अधिकारी, सीबी और अन्य प्रतिवादी (ओं)

सेवा में ,

3. मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड एसआरएस रॉयल हिल्स फेज– I सेक्टर 87, फरीदाबाद, हरियाण  $-12100^{\circ}$ 

4. मेसर्स एसआरएस रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एसआरएस रॉयल हिल्स फेज–I सेक्टर 87, फरीदाबाद, हरियाणा —121001

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 17(1) के तहत एक आवेदन इस न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया है (आवेदन की एक प्रति संलग्न है)। कारण बताएं कि राहत के लिए प्रार्थना को क्यों न स्वीकृत दी जानी चाहिए। आपको दो पूर्ण सेटों में पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में उत्तर, यदि कोई हो, दाखिल करना होगा और व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से न्यायाधिकरण में अपने समर्थन में सभी दस्तावेज और हलफनामा प्रस्तुत करना होगा तथा इस न्यायाधिकरण के समक्ष 01.07.2022 को पूर्वान्न 10.30 बजे पेश होना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा आपको आवेदक के वकील को एसए के उत्तर की अग्रिम प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। यह आदेश इस ट्रिब्यूनल की मुहर के साथ मेरे हाथ से 25 मई 2022 को दिया गया।

> न्यायाधिकरण के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

कंपनी सूचना श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि.

पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 CIN: L29112DL1963PLC004084; PAN: AAACS0229G फोन : 011 23315941, फैक्स : 011 23311203

E-Mail : compliance.officer@shrirampistons.com, Website : www.shrirampistons.com एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि

कम्पनी की 58वीं वार्षिक आम सभा ("58वीं एजीएम") एजीएम नोटिस में जैसा कि यथा निर्धारित सामान्य व विशेष कार्य के संचालन हेत् बुधवार 29 जून, 2022 समय शायं 4:00 बजे (भामास) वीडियो कांन्फ्रेसिंग / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम 2015 साथ में पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2021 21/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 05 मई, 2022 के ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 एवं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 क्रमशः ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के संबंध में, 58वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के सहित वर्ष 2021-2022 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी. जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी / आरटीए / डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना व वार्षिक रिपोट की भौतिक प्रति की आवश्यकता उक्त परिपत्रों के तहत समाप्त की जा चुकी है। जिन शेयरधारकों ने अपने ई—मेल आईडी कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं की हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ई--मेल आईडी जल्द से जल्द उपलब्ध कराएँ ताकि एजीएम की सुवना व वार्षिक रिपीट मेजी जा सके। ई--मेल आईक्षे के अपडेशन की प्रक्रिया निम्नानुसार है। भौतिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्य आवश्यक विवरण अर्थात (ए) फोलियो नंबर (बी) शेयरधारक का नाम (सी) शेयर प्रमाणपत्र (आगे व पीछे) की स्कैन्ड प्रति (डी) पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन्ड प्रति (ई) आधार कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन्ड प्रति, ई-मेल compliance.officer@shrirampistons.com पर भेजकर कम्पनी के साथ अपने ई--मेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। ii) डिमेट फार्म में शेयर रखने वाले सदस्य (ए) डिमेट खाता संख्या (सीडीएसएल–16) अंकीय लाभार्थी आईडी या एनएडीएल–16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी) (बी) शेयरधारक का नाम (सी) क्लाइंट मास्टर की स्व सत्यापित स्कॅन्ड प्रति या समग्र खाते के विवरण की प्रति (डी) पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कॅन्ड प्रति (ई) आधार कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन्ड प्रति, ई–मेल compliance.officer@shrirampistons.com पर भेज सकते हैं। iii) कम्पनी सीडीएसएल के साथ समन्वय करेगी और उपर्युक्त शेयरधारकों को लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रदान करेगी। एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोट इनवेस्टर दिशा–निर्देशों के तहत कंपनी की वेबसाइट www.shrirampistons.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध रहेगी। एजीएम सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सुविधा व रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evotingindia.com पर अंकित होगी। जिन शेयरधारकों ने कंपनी / डिपोजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने बैंक खाते का विवरण अपखेट नहीं कराया है जन शेयरधारकों से अनुरोध है कि इसे शीघ्र अपखेट करा लें ताकि कम्पनी उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से भावी लाभांशों को जमा करने में सक्षम हो सके। डिमेट फार्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वह अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करा लें। भौतिक फार्म में शेयर रखने याले शेयरधारक "इनवेस्टर दिशा–निर्देश" के तहत कंपनी की वेबसाइट www.shrirampistons.com से अनिवार्य ईसीएस डाउनलोड कर सकते हैं या अपने ई—मेल पर अनिवार्य ईसीएस फार्म प्राप्त करने के लिए compliance.officer@shrirampistons.com पर कंपनी को लिखें। कृते श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि. (हस्ता./-) (पंकज गुप्ता) स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव दिनांक : मई 30, 2022 सदस्य सं.: F-4647 तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

	एर CIN: पंजीकृत कार्यालय: ए-48, पहले 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमा	स <b>आरयू स्टील्स्</b> L17300DL199 गे मंजिल, वजीर ही एवं वर्ष के	5PLC107286 पुर औद्योगिक क्षेत्र	त्र, नई दिल्ली-11 वत्तीय परिणामो व	हा विवरण	
क्रम सं.	िवयरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त 3 महीने	31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त पूर्व 3 महीने	31 मार्च, 2021 को समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	(रु. लाखों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष
	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	देखे टिप्पणी 3	( अनंकेक्षित )	देखें टिप्पणी 3	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	182.08	319.17 1.46	519.80 9.24	1,505.14 31.08	2,707.96 28.83
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	12.09	1,46	9.24	31.08	28.83
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	8.95	1.08	8,65	23.00	21.15
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ⁄ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	8.95	1.08	8.65	23.00	21.15
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	799.19	799.19	799.19	799.19	799.19
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)				468.28	445.17
8	आय प्रति इक्विटी शेयर (रु. 10/-प्रति का सम मूल्य) (वार्षिकीकृत नहीं)					
	मूल एवं तरल आय प्रति शेयर (रु. में)	0.11	0.01	0.11	0.29	0.26

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 सर्क्युलर नं. CIR/CFD/62/2016/ तिथि 5 जुलाई, 2016 द्वारा यथा संशोधित के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थातु www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.srusteels.in) पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 30 मई, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।

3. इन स्टैंडएलॉन परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (इंडएएस) तथा लागू होने वाली सीमा तक अन्य मानयता प्राप्त लेखा सिद्धांतों एवं नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है।

4. 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम क्रमशः सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा संबंधित वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित आँकडो के संदर्भ में अंकेक्षित ऑकडों के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. कम्पनी का प्राथमिक व्यवसाय खंड कम्पनी द्वारा निष्पादित मूल व्यावसायिक क्रियाकलापों पर आधारित है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट रूप में कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार कम्पनी विवरण देने योग्य एक व्यवसाय खंड अर्थात स्टैनलेस स्टील्स व्यवसाय के ट्रेडिंग में प्रचालन करती है तथा प्राथमिक रूप से भारत में प्रचालन करती है जिसे एकल भौगोलिक खंड माना जाता है।

6. उसे चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष/तिमाही के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं। एसआरयु स्टील्स लिमिटेड के लिये

	e ( uu )
	अपूर्व अगरवाल
स्थानः नई दिल्ली	( प्रबंध निदेशक )
तिथि: 30 मई, 2022	DIN: 02763242
I	

## **ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED** (CIN: L65993DL1989PLC035409)

Regd. Office : 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi -110019 Website : www.aiml.in | E-mail : alliance.intgd@rediffmail.com | Tel : +91-11-40517610

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS

	·	( अंकेक्षित )	( अनंकेक्षित )	( अंकेक्षित )	( अंकेक्षित )	( अंकेक्षित )
1.	परिचालनों से कुल आय	2327.52	2572.63	2113.60	7718.57	5529.33
2.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथव असाधारण मदों से पूर्व)	(66.79)	(4.22)	(167.03)	(405.84)	(402.41)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(66.79)	(4.22)	(167.03)	(405.84)	(402.41)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथव असाधारण मदों के बाद)	(41.56)	(3.32)	(110.98)	(262.83)	(237.65)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ) (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(52.64)	(6.47)	(97.18)	(280.20)	(278.39)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. २/– प्रति)	675.62	675.62	675.62	675.62	675.62
7.	आरक्षित पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्याकंन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित	1	25	12.5	8,517.23	8,797.44
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) मूल (रु.): तरल (रु.):	(0.12) (0.12)	(0.01) (0.01)	(0.33) (0.33)	(0.78) (0.78)	(0.70) (0.70)

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही/वार्षिव अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही/वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.archiesinvestors.com) पर उपलब्ध है।

· · ·	बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
	हस्ता∕-अनिल मूलचन्दानी
	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
	DIN: 00022693

	$\rightarrow$	$\frown$
अलीरॉक्स	एबास्ट्रम	ालामटद
	221/10/1	

सीआईएन: L74899DL1944PLC000759 पंजीकृत कार्यालयः ४, सिंदिया भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 011.45685625 / 011.41070069, वेबसाइटः www.alirox.com

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के एकल एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

Ŧ			एकल		समेकित			
क सं	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	
		31.03.2022 अलेखापरीक्षित	31.03.2021 अलेखापरीक्षित	31.03.2022 लेखापरीक्षित	31.03.2022 अलेखापरीक्षित	31.03 <i>.</i> 2021 अलेखापरीक्षित	31.03.202 लेखापरीक्षि	
1.	परिचालनों से कुल आय	10.00	15.60	45.60	10.00	24.60	45.60	
2.	अवधि हेतु निवल लाभ⁄(हानि) (कर, आपवादिक एवं⁄अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(4.33)	(1.83)	10.96	(4.77)	(0.22)	6.68	
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ⁄(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(4.33)	(1.83)	10.96	(4.77)	(0.22)	6.68	
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(2.51)	(1.48)	9.93	(2.80)	(0.24)	5.81	
5. 6.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय ख्अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट,	(741.18)	1,281.45	154.71	(741.44)	1,282.70	150.59	
7.	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. १०/— अंकित मूल्य प्रति अंश)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	
	अन्य समता, पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर							
8.	आय प्रति अंश (रु. १०/– प्रत्येक का) मूल तरलीकृत	(1.95) (1.95)	(0.62) (0.62)	4.14 4.14	(2.08) (2.08)	(0.10) (0.10)	2.42 2.42	

1. उपरोक्त परिणाामों की समीक्षा बोर्ड की लेखापरीक्षक समिति द्वारा की गई है तथा बाद में निदेशक मंडल द्वारा 30 मई 2022 को इनका अनमोदन किया गया।

2. उपरोक्त विवरण जो हैं, वे सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध वित्तीय परिणामों के विस्तुत प्रारूप का एक सारांश हैं। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.msei.in) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.alirox.com) पर उपलब्ध है।

3. कंपनी के वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015, संशोधितानुसार, के अनुसार तैयार किया गया है। कृते अलीरॉक्स एब्रेसिव्स लिमिटेड

> हस्ता. / -लीना रावल पूर्णकालिक निदेशक एवं सीईओ

स्थानः नई दिल्ली		
दिनांकः 30.05.2022		

	Contractor Street	2011 C 11 12	ATT 555000	1210-121721-12271	<ol> <li>200.0201.0x10</li> </ol>	A DESCRIPTION OF A DESC	1 August 12 States States 14		10001	A A ST A CLUB & RETURN A STREAM A COMPANY
				CD			VAI	DAIC		IMITE
Ξ.			3 85				Y AL			

				11	(Rup	ees in Lacs)		
SI.	GAE 108 0		Quarter Ende		Year	Ended		
No.	Particulars	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)		EXTR
1	Total Income from operations	2,312.93	2,300.10	3,658.27	7,920.94	7,432.56		
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(1,738.49)	(603.45)	(1,716.98)	(7,572.43)	(9,906.13)	SI. No.	
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3 ,596.93	(603.45)	(1,716.98)	(2,432.01)	(9,906.13)		0
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3 ,596.93	(603.45)	(1,716.98)	(2,458.53)	(9,906.13)	1	Total Income
5	Total Comprehensive Income for the period ( Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	3,598.77	(602.45)	(1 711 07)	(2,456.69)	(9,901.12)	2	Net Profit / (Lo Exceptional an
6	Paid-up Equity Share Capital		(603.45)	1000000000	NAMES 252	0000000000	3	Net Profit / (Lo (after Exceptio
-	(Face Value of Rs. 1/- each)	1,161.25	1,161.25	1,161.25	1,161.25	1,161.25	4	Net Profit / (Lo (after Exceptio
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2.1			(36,984,43)	(34,527.72)	_	Total Compreh
8	Earnings per Share(of Rs. 1/- each) for continuing and discontinued operations)-				(31123.53)		5	[Comprising Pi and Other Con
1	a Basic	30.99	(5.20)	(14.74)	(2.12)	(85.30)	6	Equity Share C
	b Diluted	30.99	(5.20)	(14.74)	(2.12)	(85.30)	7	Reserves (exc in the Audited
1, 1 7	tes to financial result: The above results were reviewed by the audit committee an 2022 and the Statutory Auditors of the Company have can March 31, 2022.						8	Earnings Per S and discontinu 1 Basic 2 Diluted
t 1 3. 1 (	The figures for the quarter ended March 31, 2022 and corres between audited figures for the full financial year ended M figures of nine months ended December 31, 2021 and Dece The above is an extract of the detailed audited financial resu Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 20 Company www.aiml.in and the website of BSE i.e. www.bse	farch 31, 2022 mber 31, 2020 Its filed with the 15 and full form	and March 3 respectively. Stock Exchar ats of the same	1, 2021 respe nge under Rei e are also ava	ctively and th gulation 33 of ilable on the w itegrated Met	ne unaudited SEBI(Listing vebsite of the		The above is a Regulation 33 of Financial Result Comp_Resultsn # - Exceptional i AS Rules, which
	e: 30.05.2022 ce: New Delhi			Chairman	Cum Wholet	time Director 1:03331560		e: 30.05.2022 ce: Jaipur

Regd. Office: 2070, Rasta Bara Gangore, Jaipur-302003 Email: rsyltd@gmail.com; Phone & Fax No.: 0141-2575213, CIN: L1711RJ1987PLC004067; Visit us at : www.rishabspecial.com

### EXTRACT OF STANDALONE RESULTS FOR THE QUARTER

AND HALF YEAR ENDED 31.03.2022

डीआईएनः 03575675

n

					(Amount If	VR in Lakhs
SI. No.	Particulars	For the quarter ended 31.03.2022	For the quarter ended 31.12.2021	For the quarter ended 31.03.2021	For the Year Eneded 31.03.2022	For the Year ended 31.03.2021
		Audited	Un-Audited/ Reviewed	Audited	Audited	Audited
1	Total Income	0.034	0.957	0.005	0.991	0.005
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items#)	(10.072)	(0.724)	(3,129)	(19.241)	(11.812)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(10.072)	(0.724)	(3.129)	55.363	61.930
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)	(10.072)	(0.724)	(3.129)	41.752	47.498
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(10.072)	(0.724)	(3.129)	41.752	47.498
6	Equity Share Capital	3560700	3560700	3560700	3560700	3560700
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	56.27	14.52	14.52	56.27	14.52
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) of Rs. 10/- 1 Basic 2 Diluted	(0.283) (0.283)	(0.020) (0.020)	(0.088) (0.088)	1.173 1.173	1.334 1.334

above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under lation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly ncial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange(s) http://www.bseindia.com/corporates/ p\_Resultsnew.aspx?expandable=3 and the company www.rishabspecial.com.

xceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules ules, whichever is applicable For RISHAB SPECIAL YARNS LIMITED

नई दिल्ली

Sd/ Amitabh Hirawat, Managing Director DIN: 00349697

www.readwhere.com